



# बरेली पुलिस



**प्रेस नोट दिनांक 12.09.2022**

**थाना शीशगढ़ जनपद बरेली ।**

**थाना शीशगढ़ #bareillypolice द्वारा मु0अ0सं0 291/22 धारा 302 से संबंधित पांच अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।**

**घटना का संक्षिप्त विवरण:-** वादी श्री आशा राम उर्फ नन्हे पुत्र लोकीराम नि0ग्राम जियानगला थाना शीशगढ़ जनपद बरेली द्वारा दिनांक 03.09.22 को स्व लिखित तहरीर दी गयी कि मेरे लड़के सुनील उम्र करीब 22 वर्ष का लगभग 03 माह पूर्व मेरे गांव के इसरार अहमद पुत्र निसार अहमद की पुत्री के साथ प्रेम प्रसंग को लेकर झगड़ा फसाद हो गया था। किन्तु इस मामले का फैसला गांव के प्रधान पति रेवाराम व कुछ सम्भ्रांत लोगो ने समझा बुझाकर माह मार्च 2022 में समझौता करा दिया था। तथा लड़का-लड़की के सम्बन्ध समाप्त करा दिये थे। तब से लड़की के पिता व उसके परिवार के लोग अन्दरूनी रंजिश मानते थे। इसके बाद फिर दोबारा से लड़की का फोटो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाने को लेकर विवाद हुआ था लेकिन थाने में कोई शिकायत नहीं की गयी थी।

दिनांक 02/03.09.2022 की रात्रि में मेरा लड़का 11 बजे तक घर की छत पर लेटा था। उसके बाद सुनील घर से गायब हो गया, जिसकी लाश सुबह घर से लगभग 500 मीटर दूर ग्राम कुतुबपुर थाना शीशगढ़ बरेली के रहने वाले सालिक राम पुत्र होरीलाल के आम के बाग में मिली। जिसके मुंह में कपड़ा ठुसा था पैर व हाथ प्लास्टिक की रस्सी से बंधे थे। मेरे लड़के सुनील को किसी तरह धोखे से बुलाकर लड़की के पिता 01. इसरार अहमद 02. इसरार अहमद के भाई अवरार अहमद 03. सरफराज अहमद निवासीगण ग्राम जियानगला थाना शीशगढ़ जनपद बरेली तथा उनके रिश्तेदार 04. फजल 05. यासीन पुत्रगण अल्लादीन निवासीगण ग्राम कुतुबपुर थाना शीशगढ़ बरेली ने मिलकर मेरे लड़के को जबरन गले में फासी का फंदा लगा कर आम के पेड़ पर लटका कर हत्या कर दी। घटना के समय मेरे लड़के ने गांव के व्हाट्सएपग्रुप राम राम जी पर कुछ ऑडियो क्लिप भी भेजी है। जिनमें वह इन अभियुक्तों से अपनी जान की भीख माग रहा है।

उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 291/22 धारा 302 भादवि0 बनाम इसरार अहमद आदि 05 अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना शीशगढ़ पर पंजीकृत कराया गया ।

कल दिनांक 11.09.22 मु0अ0सं0 291/22 धारा 302 भादवि0 से सम्बन्धित नामजद अभियुक्तगण 1. इसरार अहमद पुत्र निसार अहमद 02. अवरार अहमद पुत्र निसार अहमद 03. सरफराज अहमद पुत्र निसार अमहद निवासीगण ग्राम जियानगला थाना शीशगढ़ जनपद बरेली 04.फजल 05.यासीन पुत्रगण अल्लादीन निवासीगण ग्राम कुतुबपुर थाना शीशगढ़ जनपद बरेली को मानपुर चौराहा से प्रभारी निरीक्षक शीशगढ़

मय टीम के द्वारा गिरफ्तार किये गये हैं। अभियुक्तगणों ने पूछताछ में घटना में अपनी संलिप्तता होना स्वीकार किया गया है। जिनको माननीय न्यायालय समक्ष पेश किया जायेगा।

उक्त घटना प्रेम-प्रसंग के कारण घटित हुयी है, जिसकी विवेचना वरिष्ठ उच्चाधिकारियों के पर्यवेक्षण को ध्यान में रखकर गहनता से की जा रही है। मृतक के बिसरा को संरक्षित किया गया है तथा घटना स्थल की विडियोग्राफी को स्टेट लीगल एक्सपर्ट को भेजकर अग्रिम जांच व कार्यवाही की जायेगी। विवेचना प्रचलित है।

### **गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम:-**

01. इसरार अहमद पुत्र निसार अहमद नि0ग्राम जियानगला थाना शीशगढ़ जनपद बरेली।
02. अवरार अहमद पुत्र निसार अहमद नि0 ग्राम जियानगला थाना शीशगढ़ जनपद बरेली।
03. सरफराज अहमद पुत्र निसार अहमद नि0ग्राम जियानगला थाना शीशगढ़ जनपद बरेली।
04. फजल पुत्र अल्लादीन नि0ग्राम कुतुबपुर थाना शीशगढ़ जनपद बरेली।
05. यासीन पुत्र अल्लादीन नि0ग्राम कुतुबपुर थाना शीशगढ़ जनपद बरेली।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

01. प्रभारी निरीक्षक श्री राम अवतार सिंह थाना शीशगढ़ जनपद बरेली।
02. निरीक्षक अपराध श्री नरेशपाल सिंह थाना शीशगढ़ जनपद बरेली।
03. 30नि0 पवन कुमार थाना शीशगढ़ जनपद बरेली।
04. 30नि0 धर्मेन्द्र कुमार थाना शीशगढ़ जनपद बरेली।
05. 30नि0 अमित कुमार थाना शीशगढ़ जनपद बरेली।
06. का0 3886 रवि कुमार थाना शीशगढ़ जनपद बरेली।
07. का0 3844 रंजन कुमार थाना शीशगढ़ जनपद बरेली।
08. का0 2751 अंकित नागर थाना शीशगढ़ जनपद बरेली।
- 05.म0का0 3348 अंजली थाना शीशगढ़ जनपद बरेली।